



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 02 सितम्बर, 2019/11 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 अगस्त, 2019

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-27/2019.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) जोकि आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को हिमाचल

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2019 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम
2. धारा 10—क का प्रतिस्थापन

2019 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

2. **धारा 10—क का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10—क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“10—क. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगा:

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद “कुटुम्ब” से पति-पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सुख-सुविधा समिति ने राज्य से बाहर और देश के भीतर टैक्सी द्वारा यात्रा का प्रावधान करने सहित विधान सभा के सदस्यों के मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा में बढ़ाव करने की सिफारिश की है। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सम्यक् रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अतः सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 के उपबन्धों को भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के आशय से, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति की विद्यमान सीमा को दो लाख पचास हजार रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए तक करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख :, 2019

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Substitution of section 10-A.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND
DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2019**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2019.

2. Substitution section 10-A.—For section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, the following shall be substituted, namely:—

“10-A. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) The Speaker and the Deputy Speaker during the term of their office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to a maximum amount of four lac rupees in each financial year :

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees :

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression “family” shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) The Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowance of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) shall be taken into account.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility to Member (s) of Legislative Assembly alongwith making provision of taxi outside the State and within the Country. The recommendations made by the said Committee have duly been accepted. Thus, in order to maintain parity amongst the Members, Speaker and Deputy Speaker and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries, Act, 1971 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to enhance the existing limit of reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from rupees two lac fifty thousand to rupees four lac to the Speaker and Deputy Speaker. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)

Chief Minister.

SHIMLA :

THE, 2019.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 31 अगस्त, 2019

सं० वि० स०-विधायन-प्रा०/1-1/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा 31 अगस्त, 2019 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यशपाल शर्मा,
सचिव,

हि० प्रा० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA**NOTIFICATION**

Shimla-171004, the 31st August, 2019

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned *sine-die* with effect from the close of its sitting held on the 31st August, 2019.

YASH PAUL SHARMA,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 31 अगस्त, 2019

सं० वि० स०—विधायन—विधेयक/1-25/2019.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 262 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रवर समिति हेतु सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :—

प्रवर समिति

1. डॉ० राम लाल मारकंडा, माननीय कृषि मन्त्री।	..	सभापति
2. श्री जगत सिंह नेगी	..	सदस्य
3. श्री सुख राम	..	सदस्य
4. श्री नन्द लाल	..	सदस्य
5. श्री बलवीर सिंह वर्मा	..	सदस्य
6. श्री जीत राम कटवाल	..	सदस्य
7. श्री विक्रमादित्य सिंह	..	सदस्य
8. श्री राकेश जम्वाल	..	सदस्य

सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला—4, 30 अगस्त, 2019

संख्या वि०स०—विधायन—विधेयक/1-26/2019.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 15) जोकि आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम
2. धारा 6 का प्रतिस्थापन
3. धारा 6—क का प्रतिस्थापन

2019 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

2. **धारा 6 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“6. **रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.**—(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्वधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर, होगा:

परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु यह और कि टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायुमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद “कुटुम्ब” से पति या पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) प्रत्येक सदस्य उसके अपने अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा और ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन, कुल रकम का अवधारण कराने के लिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 10—क के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसको और उसकी पत्नी या यात्रा के दौरान उसकी देख-भाल और सहायता के लिए उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर यात्री कर का संदाय किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन सदस्य को जारी किए गए निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उसके द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे।

(5) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है।”।

3. धारा 6—क का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 6—क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“6—क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांज़िट) सुविधा.—किसी भूतपूर्व सदस्य को अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्येय इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय दो लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यात्रा व्यय, जो राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण निःशुल्क यात्रा भत्ता में संशोधन करने के साथ-साथ राज्य के बाहर और देश के भीतर टैक्सी द्वारा यात्रा का प्रावधान करने की आवश्यकता हो गई है। विधान सभा सुख-सुविधा समिति द्वारा यात्रा व्यय में बढ़ौतरी करने की भी सिफारिश की गई है। इसलिए, सदस्य सुख-सुविधा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने सहित मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांज़िट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा को दो लाख पचास हजार रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। भूतपूर्व सदस्यों की दशा में, मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांज़िट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा अब एक लाख पच्चीस हजार रुपए के बजाय दो लाख रुपए होगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

हस्ताक्षरित/—
(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख....., 2019

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2019

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2019**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title
2. Substitution of section 6
3. Substitution of section 6-A

Bill No. 15 of 2019

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2019**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2019.

2. Amendment of section 6.—For section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the “principal Act”), the following shall be substituted, namely:—

“6. Free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi.—

(1) Each member during the term of his office shall be entitled to travel at any time, by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his family or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport or by taxi on production of tickets or bills for such journey performed:

Provided further that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, expression “family” shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each member shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount so incurred on such journey under this section, the amount so incurred in the same financial year by journey performed by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) or under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker’s and Deputy Speaker’s Salaries Act, 1971 (4 of 1971) shall be taken into account.

(3) Each member shall be provided with two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to look after and assist him during travel at any time without payment or fare and passenger tax thereon by any public service vehicle of the Himachal Road Transport Corporation.

(4) The free passes issued to a member under sub-section (1) shall be valid for the terms of his office and on the expiration of such term these shall be surrendered by him to the Secretary of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(5) Nothing in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowances to which he is otherwise entitled under the provisions of this Act or rules made thereunder."

3. Substitution of section 6-A.—For section 6-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“6-A. Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi to ex-members.—An ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within India or by taxi outside the State and within the Country alongwith his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of two lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of maximum amount of two lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi in a financial year shall not exceed two lac rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the travel expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representatives has to incur on account of various demands of the public life, there has arisen a need to revise their free travelling allowance alongwith making provisions of taxi outside the State and within the Country. Increase in the travel expenses has also been recommended by the Vidhan Sabha Members Amenities Committee. As such, it has been decided to accept the recommendations of the Members Amenities Committee with respect to enhancement of the existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from rupees two lac fifty thousand to rupees four lac to the Member(s) of Legislative Assembly. In case of ex-members, now the limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility shall be rupees two lac instead of rupees one lac twenty five thousand. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/-
(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE , 2019.

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 08 ना० तह० रीडर पुखरी/2019/569

तारीख दायरा : 24-07-2019

सुशील कुमार पुत्र श्री किरपा राम, गांव भन्डार, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

सुशील कुमार पुत्र श्री किरपा राम, गांव भन्डार, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे बेटे नामक स्पर्श शर्मा का जन्म दिनांक 17-12-2009 व समर्थ शर्मा का जन्म दिनांक 02-01-2013 को गांव भन्डार पंचायत राजनगर में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे दोनों बेटों के जन्म पंजीकरण का इन्दाज ग्राम पंचायत राजनगर में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटों के जन्म पंजीकरण/इन्द्राज करने के आदेश ग्राम पंचायत राजनगर को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटों का जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी के बेटों का जन्म पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत राजनगर को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-08-2019 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 09 ना० तह० रीडर पुखरी/2019/568

तारीख दायरा : 31-07-2019

पंकज कुमार पुत्र श्री नरवीर सिंह, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

पंकज कुमार पुत्र श्री नरवीर सिंह, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक अपर्यापता प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 09-01-1996 को गांव चकलू व पंचायत चकलू में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे जन्म पंजीकरण का इन्दाज ग्राम पंचायत चकलू में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत चकलू को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी का जन्म पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-08-2019 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 29/BT 2019

दायर तिथि : 20-06-2019

श्री भादरू पुत्र श्री चन्दु राम साकन, गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भादरू पुत्र श्री चन्दु राम साकन, गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री पुर्वी का जन्म दिनांक 05-05-2013 को स्थान गांव मलाणा, डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्दाज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पुर्वी पुत्री श्री भादरू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer, Manali,
Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Rattan Bahadur s/o Sh. Sethi Bahadur, r/o House No. 106, Ward No. 1 Manali, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Uma Kala d/o Sh. Prem Bahadur, r/o Ward No.1, Near Suraj Dhaba, Log Hut Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Rattan Bahadur s/o Sh. Sethi Bahadur, r/o House No. 106, Ward No. 1 Manali, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Uma Kala d/o Sh. Prem Bahadur, r/o Ward No.1, Near Suraj Dhaba, Log Hut Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 20-08-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-09-2019 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 22nd day of August, 2019.

Seal.

Sd/-
*Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Manali,
Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Vineet Michael Kujur s/o Sh. Punna Vijay Kujur, r/o 90/126 A-Muirabad Near Mohak Hospital Allahbad Kty., Soraon Allahbad U.P.-211002 at present c/o Lt. Col. Tashi Dogra s/o Sh. Shiv Chand V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Rojlina Ravikant Tarekar d/o Sh. Ravikant Tarekar, r/o Waghapur, Road Near Petrol Pump, Bangar Nagar Yavatmal Maharashtra at present c/o Lt. Col. Tashi Dogra s/o Sh. Shiv Chand V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Vineet Michael Kujur s/o Sh. Punna Vijay Kujur, r/o 90/126 A-Muirabad Near Mohak Hospital Allahbad Kty., Soraon Allahbad U.P.-211002 at present c/o Lt. Col. Tashi Dogra s/o Sh. Shiv Chand V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Rojlina Ravikant Tarekar d/o Sh. Ravikant Tarekar, r/o Waghapur, Road Near Petrol Pump, Bangar Nagar Yavatmal Maharashtra at present c/o Lt. Col. Tashi Dogra s/o Sh. Shiv Chand V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 20-08-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-09-2019 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 22nd day of August, 2019.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री नवीबकश पुत्र श्री रशीद, निवासी गांव खखरोला—शोला, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।

श्री नवीबकश पुत्र श्री रशीद, निवासी गांव खखरोला—शोला, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने शपथ—पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके बेटे की जन्म तिथि की प्रविष्टि जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका। इसलिए प्रार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शिंगला में पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिंगला के जन्म पंजीकरण रिकार्ड में दर्ज करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ

मोहर।

विपन ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
(हि0 प्र0)**

श्री इब्राहिम पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी ग्राम कूट नाला, डाकघर डान्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।

श्री इब्राहिम पुत्र श्री अली हुसैन, निवासी ग्राम कूट नाला, डाकघर डान्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने शपथ—पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने वर्णन किया है कि उसके बच्चों की जन्म तिथि की प्रविष्टि जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका। इसलिए प्रार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता है जो निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	बच्चों का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि
1.	अब्दुल खान पुत्र	श्री इब्राहिम	07-08-1997
2.	मोहम्मद रफीक पुत्र	श्री इब्राहिम	05-06-2001
3.	मुहम्मद बीर लाल पुत्र	श्री इब्राहिम	09-04-2015

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शिंगला में पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असातन/वकालतन दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिंगला के जन्म पंजीकरण रिकार्ड में दर्ज करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ
मोहर।

विपन ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री छेरगु राम पुत्र श्री गोसरू राम, निवासी ग्राम बठारा, डाकघर शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।

श्री छेरगु राम पुत्र श्री गोसरू राम, निवासी ग्राम बठारा, डाकघर शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि० प्र० ने शपथ-पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने वर्णन किया है कि उसके पिता स्व० श्री गोसरू राम का देहान्त दिनांक 15-07-1973 को हुआ था तथा मृत्यु की प्रविष्टि जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका। इसलिए प्रार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असातन/वकालतन दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ
मोहर।

विपन ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
(हि० प्र०)

श्री श्याम लाल पुत्र श्री हिरा नन्द, निवासी ग्राम रून्पू, डाकघर किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।

श्री श्याम लाल पुत्र श्री हिरा नन्द, निवासी ग्राम रून्पू, डाकघर किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि० प्र० ने शपथ-पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने वर्णन किया है कि उसकी जन्म तिथि 02-09-1970 है किन्तु प्रार्थी के माता पिता अज्ञानता के कारण जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सके। इसलिए प्रार्थी ग्राम पंचायत किन्नू के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत किन्नू में पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असातन/वकालतन दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ
मोहर।

विपन ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश**

श्री पदम दास पुत्र स्व० श्री शाडू राम, निवासी ग्राम चदाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम—दरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक चदाली पटवार वृत्त गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि० प्र०।

यह दरखास्त श्री पदम दास पुत्र स्व० श्री शाडू राम, निवासी ग्राम चदाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस गुजारिश के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक चदाली के खाना मालिक व काश्तकार में परमा दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम पदम दास है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है। जिसमें वादी का नाम पदम दास होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में परमा के स्थान पर पदम दास दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक चदाली पटवार वृत्त गोपालपुर के माल कागजात में श्री परमा के स्थान पर पदम दास दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि० प्र०।

**ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश**

श्री चमन लाल पुत्र श्री चेपा राम, निवासी ग्राम व डाकघर मशनू, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम—दरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक मशनू पटवार वृत्त दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि० प्र०।

यह दरखास्त श्री चमन लाल पुत्र श्री चेपा राम, निवासी ग्राम व डाकघर मशनू, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस गुजारिश के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका

चक मशनु के खाना मालिक व काश्तकार में चादी राम पुत्र श्री चेपा राम दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम चमन लाल है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने मुख्य अध्यापक मशनु द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम चमन लाल होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में चादी राम के स्थान पर चमन लाल दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक मशनु पटवार वृत्त दोफदा के माल कागजात में श्री चादी राम के स्थान पर चमन लाल दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

**In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla (H. P.)**

Shri Atter Singh s/o Shri Raniya, r/o Village Kandal, P.O. Tikkari, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Atter Singh s/o Shri Raniya, r/o Village Kandal, P.O. Tikkari, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Narveer Singh whose date of birth (06-11-1997) in the Gram Panchayat Dhanat, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 16-09-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 16-08-2019.

Seal.

ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Sh. Ram Kishan s/o Late Sh. Deep Ram, r/o Village Brawari, P.O. Patta Brawari, Tehsil &
District Solan (H. P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Ram Kishan s/o Late Sh. Deep Ram, r/o Village Brawari, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of death of his Mother namely Late Smt. Judhya Devi i.e. 20-04-1979 at r/o Village Brawari, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of death could not be entered in the record of G. P. Patta Brawari.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Late Smt. Judhya Devi w/o Sh. Deep Ram, r/o Village Brawari, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Gopal Krishan s/o Sh. Anup Ram, r/o V.P.O. Bharti, Tehsil & District Solan (H.P.)

2. Smt. Tara Devi d/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Upper Badoh, P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan.

Versus

General Public

Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Gopal Krishan s/o Sh. Anup Ram, r/o V.P.O. Bharti, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Tara Devi d/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Upper Badoh, P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 09-05-1993 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Bharti, Tehsil & District Solan (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Bharti, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Jeevan Kumar s/o Sh. Arun Kumar, r/o Bhim Niwas, Near Shiv Mandir, Kotlanala Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

2. Smt. Jaikali w/o Sh. Jeevan Kumar, r/o Bhim Niwas, Near Shiv Mandir, Kotlanala Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

Versus

General Public

Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Jeevan Kumar s/o Sh. Arun Kumar, r/o Bhim Niwas, Near Shiv Mandir, Kotlanala Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) and Smt. Jaikali w/o Sh. Jeevan Kumar, r/o Bhim Niwas, Near Shiv Mandir, Kotlanala Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 14-06-2017 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Smt. Kanwaljit Kaur w/o Sh. Sarabjit Singh, r/o Lower Bazar Bowari, Mohalla Solan,
Tehsil & District Solan (H. P.), presently resident at H. No. 467 Deholon, Road Sahnewal, District
Ludhiana Punjab . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kanwaljit Kaur w/o Sh. Sarabjit Singh, r/o Lower Bazar Bowari, Mohalla Solan,
Tehsil & District Solan (H. P.), presently resident at H. No. 467 Deholon, Road Sahnewal, District
Ludhiana Punjab has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and
Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth
of her (Kanwaljit Kaur) i.e. 11-07-1970 at r/o Lower Bazar Bowari, Mohalla Solan, Tehsil &
District Solan (H. P.), but her date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person
having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Kanwaljit Kaur w/o Sh.
Sarabjit Singh, r/o Lower Bazar Bowari, Mohalla Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) presently
resident at H. No. 467 Deholon, Road Sahnewal, District Ludhiana Punjab may submit their
objection in writing or appear in person in this court on or before 16-09-2019 at 10.00 A.M. failing
which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).*